

the high courts interim order. Yadav was elected to the Rs1 last year and his term is scheduled to end in July 2022 but was disqualified under the Anti-Defection Act.

The Chief Minister expressed displeasure over the Uttarakhand forest department move of releasing just the fifty percent of the budget sanctioned for tackling forest fire. With the flames reached near, the academic activities of Central School, located in Pauri Garhwal, were suspended on Tuesday.

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

CIN: L65993DL1989PLC035409

Regd. Off.: 910, Ansal Bhawan, 16, K G Marg, New Delhi - 110001

Phone: +91-11-41525361,

E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com;

Website: www.aiiml.in

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Wednesday, the 30th day of May, 2018, inter alia, to consider, approve and take on record the Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the

our member counsel, Advocate
B-60, Lawyers Chambers, Distt. Court,
Gurgaon. Mob:9711784640

JAY USHIN LIMITED

GI-48, G.T KARNAL ROAD, INDUSTRIAL AREA, DELHI-110033CIN-L52110DL1986PLC025118
TEL:011- 43147700

E-mail : julinvestors@jushinindia.com

Website : www.jpimgroup.co.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulation 2015, Notice is hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, May 26, 2018 at 02.30 P.M inter-alia, to consider and approve audited financial Results for the quarter and financial year ended March 31, 2018 and to recommend dividend, if any, on equity shares of the Company for the financial year 2017-18.

By Order of the Board
Jay Ushin Limited
Sd/-

Amit Kithania

Place: Delhi Sr. Manager-Finance &
Date:17.05.2018 Company Secretary

Paschim Vihar Delhi- 110063.

Also at:

Sh. Vikas Tyagi S/o Sewa Ram Tyagi

C/o M/s Fahrenhet Automobile Pvt. Ltd.

68/3, Najafgarh Road Moti Nagar Delhi- 110015.

Also at:

Sh. Vikas Tyagi S/o Sewa Ram Tyagi

R/o Flat No. A-122, 12th Floor Meadows Vista Raj Nagar Extn., Village Morta Nh-58, Ghaziabad-201001.

2. Ms. Archana Tyagi W/o Sh Vikas Tyagi

R/o H. No. A-3/198, Ground Floor Paschim Vihar Delhi- 110063.

3. M/s Value Infracon Pvt. Ltd.

Registered Office At: H-198 Second Floor Sector-63, Noida-201301

Also At:

Value Infracon Pvt. Ltd.

Registered Office At: 715, Naurang House 21 K.G. Marg Connaught Place New Delhi-110001.

Whereas the above named applicant(s) has/ have infituted a case for recovery of Rs, 41,93,178/- (Rupees Forty One Lacs Ninety Three Thousand One

Bamunpara More, Tarama Market Complex, (Check Post), P.O.- Memari, Dist.- Burdwan, Pin-713146 and also at Radhakantapur, P.O.- Memari, P.S.- Memari, Holding No.205/178, District-Burdwan, Pin-713146.

2) Smt Hifa Dhara, wife of Sri Pradip Dhara of Radhakantapur, P.O.- Memari, P.S.- Memari, Holding No.205/178, District-Burdwan, Pin-713146.

Whereas OA No.359 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 22.09.17.

Whereas this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said application under section 19(4) of the act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs.18,95,546.66 (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under:-

- 1) To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
- 2) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the Original Application.
- 3) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
- 4) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/